



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II— Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 207]

नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 15, 1978/आषाढ़ 24, 1900

No. 207]

NEW DELHI, SATURDAY, JULY 15, 1978/ASADHA 24, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 15 जुलाई, 1978

सीमा-शुल्क

ला० का० नि० 365 (अ):—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 32.04/12 के अन्तर्गत आने वाले चांदी पाउडर सस्पेंशन (आसम्बन) को, जब उसका अध्रक संघारित प्लेटें या अध्रक संघारित के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूल्यानुसार से अधिक है :

परन्तु वह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आश्वस्त करता है कि वह संबंधित चांदी पाउडर आसम्बन की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि उस अध्रक संघारित प्लेटें या अध्रक संघारित के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किए जाने पर, उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संबंधित शुल्क के बराबर हो।

[सं० 135/का० सं० 346/11/78-टी०आर०यू० (सी०शु०)]

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

NOTIFICATIONS

New Delhi, the 15th July, 1978

CUSTOMS

G.S.R.365 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts silver powder suspension, falling under Heading No. 32.04/12 of the First schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of mica capacitor plates or mica capacitors, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the silver powder suspension in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the said mica capacitor plates or mica capacitors an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

[No. 135/F. No. 346/11/78-TRU(Cus)]

सा० का० नि० 366(ख):—केन्द्रीय सरकार, सीमा शुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 37.01/08 के अन्तर्गत आने वाले फोटोरेजिस्ट फोटोपोलिमर फिल्मस को, जब उसका प्रिंटेड सर्किट्स के विनिर्माण के लिए भारत में आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है :

परन्तु वह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह संबंधित फोटोरेजिस्ट फोटोपोलिमर फिल्म की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा-शुल्क सहायक कलक्टर के समाधान-प्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त प्रिंटेड सर्किट्स के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किए जाने पर, उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संवत् शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

[सं० 136/का० सं० 346/11/78-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

G.S.R. 366 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts photoresist photopolymer films, falling under Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of printed circuits, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the photoresist photopolymer films in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the said printed circuits an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

[No. 136/F. No. 346/11/78-TRU(Cus)]

सा० का० नि० 367(ख):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 39.01/19 के अन्तर्गत आने वाले सिलिकन वेफर्स को, जब नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट और उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.18/27 के अन्तर्गत आने वाली चीजों के विनिर्माण के लिए भारत में उसका आयात किया जाए, उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह संबंधित सिलिकन वेफर्स की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमाशुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट चीजों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में दी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर

उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संवत् शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

सारणी

1. डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इस प्रकार के अर्धचालक साधन।
2. एकीकृत और संकर एकीकृत परिपथ।

[सं० 137/का० सं० 346/11/78-टी० आर० यू० (सी० शु०)]

G.S.R. 367 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts silicon wafers, falling under Heading No. 38.01/19 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of the goods specified in the Table below and falling under Heading No. 85.18/27 of the said First Schedule, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the silicon wafers in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the said Table, an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

THE TABLE

1. Diodes, transistors and similar semi-conductor devices.
2. Monolithic and hybrid integrated circuits.

[No. 137/F. No. 346/11/78-TRU(Cus)]

सा० का० नि० 368(ख):—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 39.01/06 के अन्तर्गत आने वाले इपॉक्साइड रेजिन्स और सिलिकन रेजिन्स को, जब नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट और उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.18/27 के अन्तर्गत आने वाली चीजों के विनिर्माण के लिए भारत में उसका आयात किया जाए—

(क) उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उम पर उद्ग्रहणीय सीमाशुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है; और

(ख) उस सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा 3 के अधीन उस पर उद्ग्रहणीय समस्त अतिरिक्त शुल्क से छूट देती है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्ररूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह सम्बन्धित इपॉक्साइड रेजिन्स और सिलिकन रेजिन्स की ऐसी मात्रा पर, जिसकी बाबत सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट चीजों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किए जाने पर उतनी रकम का भुगतान करेगा जो इस अधिसूचना

में भी गई छूट के न दिए जाने की दशा में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संवत् शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

सारणी

1. डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इस प्रकार के अर्धचालक साधन।
2. एकीकृत और संकर एकीकृत परिपथ।

[सं० 138/फा० सं० 346/11/78-टी०आर०यू० (सी० शु०)]

G.S.R. 368 (E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts epoxide resins and silicone resins, falling under Heading No. 39.01/06 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of the goods specified in the Table below and falling under Heading No. 85.18/27 of the First Schedule, from—

- (a) so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem; and
- (b) the whole of the additional duty leviable thereon under section 3 of the second mentioned Act :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the epoxide resins and silicone resins in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the said Table an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

TABLE

1. Diodes, transistors and similar semi-conductor devices.
2. Monolithic and hybrid integrated circuits.

[No. 138/F. No. 346/11/78-TRU(Cus.)]

सं० का० नि० 369(अ).—केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा आवश्यक है, सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) की प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 37.01/08 के अन्तर्गत आने वाले फोटोरेजिस्ट को, जब नीचे की सारणी में विनिर्दिष्ट और उक्त प्रथम अनुसूची के शीर्ष सं० 85.18/27 के अन्तर्गत आने वाली चीजों के विनिर्माण के लिए भारत में उसका आयात किया जाए। उक्त प्रथम अनुसूची में विनिर्दिष्ट उस पर उद्ग्रहणीय सीमा-शुल्क के उतने भाग से छूट देती है जितना 45 प्रतिशत मूलानुसार से अधिक है :

परन्तु यह तब जब आयातकर्ता सीमाशुल्क सहायक कलक्टर द्वारा विहित प्रारूप में और राशि का बन्धपत्र निष्पादित करके स्वयं को इस बात के लिए आबद्ध करता है कि वह सम्बन्धित फोटोरेजिस्ट की ऐसी मात्रा पर जिसकी बाबत सीमा शुल्क सहायक कलक्टर के समाधानप्रद रूप से यह साबित नहीं किया गया है कि वह उक्त सारणी में विनिर्दिष्ट चीजों के विनिर्माण के लिए प्रयोग में लाया गया है, माँग किये जाने पर उतनी रकम का नुगतान करेगा जो इस अधिसूचना में भी गई छूट के -

में उस पर उद्ग्रहणीय शुल्क और आयातकरण के समय संवत् शुल्क के अन्तर के बराबर हो।

सारणी

1. डायोड्स, ट्रांजिस्टर्स और इस प्रकार के अर्धचालक साधन।
2. एकीकृत और संकर एकीकृत परिपथ।

[सं० 139/फा० सं० 346/11/78-टी०आर०यू० (सी० 250)]

G.S.R. 369(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby exempts photoresist, falling under Heading No. 37.01/08 of the First Schedule to the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975), when imported into India, for the manufacture of the goods specified in the Table below and falling under Heading No. 85.18/27 of the said First Schedule, from so much of that portion of the duty of customs leviable thereon, which is specified in the said First Schedule, as is in excess of 45 per cent ad valorem :

Provided that the importer, by execution of a bond in such form and for such sum as may be specified by the Assistant Collector of Customs, binds himself to pay, on demand, in respect of such quantity of the photoresist in question as is not proved to the satisfaction of the Assistant Collector of Customs to have been used in the manufacture of the goods specified in the said Table an amount equal to the difference between the duty which would have been leviable on such quantity but for the exemption contained herein and that paid at the time of importation.

TABLE

1. Diodes, transistors and similar semi-conductor devices.
2. Monolithic and hybrid integrated circuits.

[No. 139/F. No. 346/11/78-TRU(Cus.)]

सं० का० नि० 370(अ).—केन्द्रीय सरकार, वित्त अधिनियम, 1978 (1978 का 19) की धारा 25 की उपधारा (1) के साथ पठित, सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 (1962 का 52) की धारा 25 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि ऐसा करना लोकहित में आवश्यक है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं० 96 सीमा-शुल्क, तारीख 12 मई, 1978 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :—

उक्त अधिसूचना की अनुसूची में क्रम सं० 201 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के पश्चात् निम्नलिखित अन्तः स्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

202 सं० 135 सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978

203 सं० 136 सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978

204 सं० 137 सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978

205 सं० 138 सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978

206 सं० 139 सीमा शुल्क, तारीख 15 जुलाई, 1978

[सं० 140/फा० सं० 346/11/78-टी०आर०यू० (सी० शु०)]

भार० के० चन्द्र, असुर मन्त्र

G.S.R. 370(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 25 of the Customs Act, 1962 (52 of 1962), read with sub-section (4) of section 35 of the Finance Act, 1978 (19 of 1978), the Central Government, being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No. 96-Customs, dated the 12th May, 1978, namely :—

In the Schedule annexed to the said notification, after Serial No. 201 and the entries relating thereto, the following shall be inserted, namely :—

“202. No. 135-Customs, dated the 15th July, 1978.

203. No. 136-Customs, dated the 15th July, 1978.

204. No. 137-Customs, dated the 15th July, 1978.

205. No. 138-Customs, dated the 15th July, 1978.

206. No. 139-Customs, dated the 15th July, 1978”.

[No. 140/F. No. 346/11/78-TRU(Cus)]

R. K. CHANDRA, Under Secy.